



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2005/चैत्र 2, 1927

No. 294]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2005/CHAITRA 2, 1927

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 10 मार्च, 2005

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की
धारा 4ख की उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन अधिसूचना

का.आ. 401(अ).—यतः नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड जिसका पता "एक्सचेंज प्लाजा", बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई-400051 है, ने अपने पत्रों सं. एन.एस.ई.आई.एल./एस.एंड.एल.डी./8384-9 दिनांक 8 दिसम्बर, 2004 और एन.एस.ई.आई.एल./एस.एंड.एल.डी./8545-क्यू दिनांक 16 दिसम्बर, 2004 द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को अभ्यावेदन किया है कि यह पहले ही से निगमीकृत (कॉर्पोरेटाइज्ड) और अपरस्पर्ीकृत (डीम्यूचुअलाइज्ड) स्टॉक एक्सचेंज है और पुष्टि की है कि यह अपनी वर्तमान निगमित और अपरस्पर्ीकृत संरचना में परिवर्तन नहीं करेगा;

अब इसलिये भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड एतद्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4ख की उप-धारा (1) के परन्तुक के अधीन विनिर्दिष्ट करता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जो पहले ही निगमीकृत और अपरस्पर्ीकृत हो गया था, से निगमीकरण और अपरस्पर्ीकरण के लिए स्कीम प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा, निम्नलिखित शर्तों के अधीन :—

- (1) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड इसकी वर्तमान निगमित और अपरस्पर्ीकृत संरचना में परिवर्तन नहीं करेगा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पूर्विक अनुमोदन के बिना; और
- (2) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया लिमिटेड अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करेगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अधिरोपित की जायें।

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/35723/2005]

एम. दामोदरन्, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 10th March, 2005

**Notification under the proviso to Sub-section (1) of Section 4B of the
Securities Contracts (Regulation) Act, 1956**

S.O. 401(E).—Whereas National Stock Exchange of India Limited having its address at “Exchange Plaza”, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051, has vide its letters No. NSEIL/S&LD/8384-9 dated December 8, 2004 and NSEIL/S&LD/8545-Q dated December 16, 2004 represented to the Securities and Exchange Board of India that it is an already corporatised and demutualised stock exchange and has confirmed that it shall not change its current corporate and demutualised structure;

Now therefore, the Securities and Exchange Board of India hereby specifies under the proviso to Sub-section (1) of Section 4B of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 that the National Stock Exchange of India Limited, which had already been corporatised and demutualised, shall not be required to submit a scheme for corporatisation and demutualisation, subject to the following conditions :—

- (1) The National Stock Exchange of India Limited shall not change its current corporate and demutualised structure, without prior approval of the Securities and Exchange Board of India; and
- (2) The National Stock Exchange of India Limited shall comply with further conditions as may be imposed by the Securities and Exchange Board of India in this regard from time to time.

[F. No. SEBI/LE/35723/2005]

M. DAMODARAN, Chairman